

**आदर्श प्रश्नपत्र/ Model Question Paper**  
**वेदभूषण प्रथम-वर्ष / Vedabhushan First Year**  
**वर्ष / Year 2022-23**

**विषय - सामाजिक विज्ञान**

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र  
बहुविकल्पीयप्रश्न -

1. पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा.....में पूरी करती है।  
(क) 363 दिन 5 घण्टे (ख) 364 दिन 4 घण्टे  
(ग) 365 दिन 6 घण्टे (घ) 365 दिन 5 घण्टे
2. कर्क रेखा.....में स्थित है।  
(क) उत्तरी गोलार्ध (ख) दक्षिणी गोलार्ध  
(ग) पूर्वी गोलार्ध (घ) पश्चिमी गोलार्ध
3. विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप.....है।  
(क) दक्षिण अमेरिका (ख) एशिया  
(ग) यूरोप (घ) आस्ट्रेलिया
4. भारत का क्षेत्रफल.....वर्ग किलोमीटर है।  
(क) 32,87,263 (ख) 32,88,263  
(ग) 33,87,263 (घ) 33,88,263
5. इतिहास को आंग्ल भाषा में.....कहते हैं।  
(क) हिस्ट्री (ख) ज्योग्राफी  
(ग) सोशल साइन्स (घ) इकॉनामिक्स
6. चावल एवं मवेशियों के खुरों के निशान.....पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं।  
(क) महागढ़ (उत्तर प्रदेश) (ख) कोल्डिहवा (उत्तर प्रदेश)  
(ग) हल्लूर (आन्ध्र प्रदेश) (घ) डीडवाना (राजस्थान)
7. कायथा व ऐरण नामक पुरास्थल.....स्थित हैं।  
(क) महाराष्ट्र (ख) ओडिशा  
(ग) पंजाब (घ) मध्य प्रदेश

8. वेद.....हैं।  
 (क) 4 (ख) 8  
 (ग) 1 (घ) 5
9. भारत का नेपोलियन..... को कहा जाता है।  
 (क) समुद्रगुप्त (ख) चन्द्रगुप्त  
 (ग) विक्रमादित्य (घ) स्कन्ध गुप्त
10. निम्न में से षोडश संस्कार..... में आते हैं।  
 (क) गर्भाधान (ख) जातकर्म  
 (ग) यज्ञोपवीत (घ) उपरोक्त सभी

**रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-**

11. मंगल को.....ग्रह भी कहा गया है। (नीला/लाल)  
 12. भारत का मानक समय .....है। (82½० पू.दे./82½० प.दे.)  
 13. पृथ्वी पर पेय जल की मात्रा..... है। (3%/7%)  
 14. ....ग्रन्थ, वन एवं ऋषि परम्परा का श्रेष्ठ उदाहरण है। (आरण्यक/उपनिषद्)  
 15. हड़प्पा संस्कृति का अन्त लगभग.....वर्ष ईसा पूर्व हुआ माना जाता है। (3900/1500)

**सत्य/असत्य बताइए-**

16. पृथ्वी के 98% भाग में जल है। (सत्य/असत्य)  
 17. अगरतला का रेखांश 91.2868° पू. है। (सत्य/असत्य)  
 18. जापान का फूजीयामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। (सत्य/असत्य)  
 19. भारत में राज्यों की संख्या 28 है। (सत्य/असत्य)  
 20. सोमदेव की रचना कथासरित्सागर है। (सत्य/असत्य)

**सही जोड़ी बनाईए-**

21. पृथ्वी की जुड़वा बहन (क) आई.एस.टी  
 22. चन्द्रमा (ख) मंगल  
 23. लाल ग्रह (ग) शुक्र  
 24. भारतीय मानक समय (घ) मार्टिन बेहैम  
 25. ग्लोब का आविष्कार (ङ) उपग्रह

### अतिलघुत्तरीय प्रश्न-

26. सौरमण्डल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ?
27. अक्षांश किसे कहते हैं ?
28. लीप वर्ष किसे कहते हैं ?
29. वनस्पतियाँ किसे कहते हैं ?
30. किन्हीं आठ पुराणों के नाम लिखिए ?
31. पाषाणकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है ?
32. कालीबंगा नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है ?
33. उत्तरी अवन्ती की राजधानी का क्या नाम था ?
34. पुरुषार्थ कितने हैं ?
35. स्थानीय स्वशासन के तीन स्तरों के नामों का उल्लेख कीजिए ।

### लघुत्तरीय प्रश्न-

36. ग्रह एवं तारे में क्या अन्तर है ?
37. भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए।
38. सरस्वती नदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
39. पाश्चात्य काल गणना को समझाइये।
40. विविधता में एकता द्वारा देश को समृद्ध कैसे किया जा सकता है ?

### दीर्घउत्तरीय प्रश्न-

41. लोकतान्त्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों को समझाइए।
42. पंचायतीराज व्यवस्था को समझाइए ।